



Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)

DE JURE RECOGNISED BY

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA

CAMP OFFICE: EB-106, II FLOOR, MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side) JCM (KVS)
09414455832, 09887733117 (Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site : www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/290

दिनांक : 15/05/2021
द्वारा-ई-मेल

प्रति

माननीय आयुक्त महोदया,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय,
नई दिल्ली - 110016

विषय: कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण में प्राथमिकता दिलवाये जाने के संबन्ध में आग्रह ।

महोदया,

सविनय निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक कोरोना महामारी के दौरान भी छात्रों एवं संस्था के हित में पूरी ईमानदारी एवं मेहनत से अपना-अपना कार्य कर रहे थे / हैं । इस दौरान सभी शिक्षक भारत सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत एस.ओ.पी. की पालना करते हुए जनवरी 2021 से ग्रीष्म अवकाश होने तक कक्षा छटवीं से लेकर कक्षा बारहवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन / ऑफ़लाइन माध्यम से ले रहे थे । इस अवधि में तमाम सुरक्षा उपायों का ध्यान का ध्यान रखने के बावजूद शिक्षकों का छात्रों एवं अविभावकों के लगातार सम्पर्क में आने एवं कारणों से बहुत से शिक्षक साथी, अन्य कर्मचारी एवं उनके पारिवारिक सदस्य कोरोना पोजीटिव हो गये एवं उनमें से सैकड़ों शिक्षक साथी, अन्य कर्मचारी एवं उनके पारिवारिक सदस्य कोरोना महामारी के कारण मृत्यु के शिकार हो गये ।

महोदया, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को लगातार संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण में प्राथमिकता दिलवाये जाने के संबन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इस संबन्ध में महासचिव एर्नाकुलम एवं सहायक महासचिव (मुख्यालय) कोलकता संभागों के प्रतिवेदनों की प्रति संलग्न है जो की स्वतः व्याख्यात्मक है ।

महोदया, आपसे आग्रह है कि अपने स्तर पर या फ़िर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पदाधिकारियों से वार्ता कर शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण में प्राथमिकता दिलवाये जाने के लिए प्रयास किये जायें तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितकर कदम होगा ।

सकारात्मक निर्णय की आशा के साथ ।

सधन्यवाद ।

भवदीय

मुकुट बिहारी अग्रवाल

राष्ट्रीय महासचिव

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय अपर आयुक्त महोदया शैक्षिक /प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।
2. माननीय संयुक्त आयुक्त महोदय (शैक्षिक /प्रशासन/ कार्मिक / वित्त) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ।